



DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945 | Fax: 2204 7288
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com | Website: www.dwarikesh.com | CIN: L15421UP1993PLC018642

REF: DSIL/2025-26/231

Date: 18th December, 2025

Corporate Relationship Department

Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Fax: 22723 2082 /3132

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex,
Bandra [E], Mumbai - 400 051

Scrip Code – 532610

Scrip Code – DWARKESH

Sub: Regulation 47 – Newspaper Publication Extract of the Information of Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Deed in Eligible Cases.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the extract of the Information of Opening of Special Window for Re-lodgment of transfer deed in eligible cases, has been published in the following newspapers:

- 1. Business Standard**, New Delhi Edition (English) – Released on 18th December 2025.
- 2. Shah Times**, Moradabad Edition (Hindi) – Released on 18th December 2025.

Please acknowledge receipt of the same.

-

Thanking you,

Yours Sincerely

B. J. Maheshwari

Managing Director & CS cum CCO
DIN: 00002075

Encl: as above

Punjab Information & Communication Technology Corporation Ltd

(Punjab Infotech)
5-6th Floor Udyog Bhawan, Sector 17, Chandigarh 160017
Tel : 0172-5256400 | email : contact@punjabinfotech.in



Government of Punjab

Tender Notice Ref :Tender No:- PICTC/ITeG/2025/16

Punjab Infotechinvites online bids for Selection of Agency for Enterprise Cloud Managed Services Provider for Fastrack /Invest Punjab Business First Portal.

Start date & Time 18-12-2025 (10:00 A.M onwards) Close date & Time 27-12-2025 (till 2:00 P.M.) For details log onto <https://eproc.punjab.gov.in> Help Desk no. +91 172 2970263/2970284.

Note : Any corrigendum (s) to the tender /RFP notice shall be published on the above mentioned website only.

1919/11/2025-26/5983

INDIAN RAILWAYS

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NEW DELHI - 110001

E-TENDER No. 2025RS19549TC

Principal Executive Director, Railway Stores (S), Ministry of Railways, Railway Board, Government of India invites e-tender for procurement of 400 Bogie Brake Van type 'BVCM-C' wagons to RDSO Specification No. WD-01-BVCM-2017. Index Drawing & Design WD-09107-S-01(alt.no. 07) with Design-C (U/F).
2.0 The interested tenders are advised to visit the website <http://ireps.gov.in> for details of the tender and submission of their e-bids.
3.0 **No manual offers will be accepted against e-tender.**
4.0 **Tender will be closed at 15:00 hours on 15.01.2026.**
5.0 Any corrigendum to this tender will be published on the website <http://ireps.gov.in> only and not in print media.

Director, Railway Stores (W),
Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi,
For and on behalf of the President of India



3904/2025

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

INDIAN RAILWAYS

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NEW DELHI - 110001

E-TENDER No. 2025RS195410TC

Principal Executive Director, Railway Stores (S), Ministry of Railways, Railway Board, Government of India invites e-tender for procurement of 11 Rakes Flat Multi Purpose Wagon (Car-A & Car-B) type FMPA and FMPB. Index Drawing & Design-RDSO Drg. No. WD-19066-S-02, Alt.8 or latest (Car-A) & WD-19067-S-02, Alt. 9 or latest (Car-B)
2.0 The interested tenders are advised to visit the website <http://ireps.gov.in> for details of the tender and submission of their e-bids.
3.0 **No manual offers will be accepted against e-tender.**
4.0 **Tender will be closed at 15:00 hours on 13.01.2026.**
5.0 Any corrigendum to this tender will be published on the website <http://ireps.gov.in> only and not in print media.

Director, Railway Stores (W),
Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi,
For and on behalf of the President of India



3903/2025

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

The Jammu and Kashmir Bank
Information Security Department,
Corporate Headquarters, M.A.Road,
Srinagar 190 001 J&K.

ONLINE REQUEST FOR PROPOSAL (e-RFP) FOR CLOUD SECURITY POSTURE MANAGEMENT & WORKLOAD PROTECTION

RFP Notice along with Complete RFP document outlining the minimum requirements can be downloaded from and BIDs can be submitted on the Banks' e-Tendering Portal <https://jkbank.abcpurchase.com> w.e.f. December 18, 2025, 16.00 Hrs. RFP Document can also be downloaded from Bank's Official Website <https://jkbank.in/tenderNotice> Last date for submission of Bids is January 02, 2026 17.00 Hrs.
e-RFP Ref. No. JKB/CHQ/ISD/CLOUD SECURITY/2025-1602 Dated: 17-12-2025

Registered office: Corporate Headquarters, M.A.Road, Srinagar 190001, Kashmir, India
CIN: L65110JK19385GCO00048 ; **T :** +91 (0)194 2481 930-35 ; **F :** +91 (0)194 248 1928;
E : info@jkbank.com ; **W :** www.jkbank.in

DCW LIMITED
CIN: L24110GJ1939PLC000748
Registered Office: Dhrangadhara - 363 315, Gujarat
Head Office: Nirmal, 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Tel. No.: 022- 4957 3000 / 4957 3001
Website: www.dcwlt.com, **E-mail :** investor.relations@dcwlt.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Dear Shareholder(s),
Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, a special window is being opened for the investors for a period of six (06) months from July 07, 2025 to January 06, 2026 to facilitate re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares. This facility is available for transfer deeds that were lodged prior to April 01, 2019, but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise.
All transfer requests that are duly rectified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat mode, i.e., the shares will be transferred and issued only in dematerialised form. Further, re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership, will be considered.

Accordingly, the lodger(s) must have an active demat account. The investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents, including the Client Master List (CML), duly executed transfer deed(s), original share certificate(s), and any other necessary documents, to M/s. **Bighshare Services Private Limited**, the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), within the stipulated timeline, at the contact details provided below.

M/s. Bighshare Services Private Limited
Office No S6-2, 6th floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093
Tel.: (022) 6263 8200 Fax: (022) 6263 8299
(From 9:00 a.m. to 5:00 p.m. on all working days)
Email id: investor@bighshareonline.com

Thanking you,
For DCW Limited
Sd/
Dilip Darji
Sr. General Manager (Legal) & Company Secretary
Date: 17th December, 2025

**CORRIGENDUM TO FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
GUPTA POWER INFRASTRUCTURE LIMITED**
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

This is with reference to the Form G dated 25/11/2025 and Corrigendum to Form G dated 11/12/2025 issued in accordance with Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, the last date of receipt of Expression of Interest stands extended for 10(ten) days, accordingly revised dates for events subsequent to issuance of Form G and IEOL are as follows:

Sl.	RELEVANT PARTICULARS	TIMELINES
10.	Last date for receipt of expression of interest	27 th December, 2025 (Extended from 17 th December, 2025)
11.	Date of issue of the provisional list of prospective resolution applicants	06 th January, 2026 (Extended from 27 th December, 2025)
12.	Last date for submission of objections to provisional list applicants	12 th January, 2026 (Extended from 02 nd January, 2026)
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	17 th January, 2026 (Extended from 07 th January, 2026)
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	20 th January, 2026 (Extended from 10 th January, 2026)
15.	Last date for submission of resolution plans	20 th February, 2026 (Extended from 10 th February, 2026)
16.	Process email ID to submit EOI	ip.guptapower@gmail.com

Note: The other contents and the terms of the Form G dated 25/11/2025 shall remain same.

Sd/-
Date: 18th December, 2025

CA. Pradeep Kumar Kabra
RP for M/s. Gupta Power Infrastructure Limited
IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01104 /2017-18/11790
Email: ip.guptapower@gmail.com

JAMSHEDPUR NOTIFIED AREA COMMITTEE
New Kalimati Road, Sakchi-831001
E- mail ID-jnacsjr@gmail.com

E- Procurement Notice
Tender Notice
NIT No- JNAC/27/2025-26 Date-17.12.2025

1.	Name of the work	Faecal Sludge and Septage Management Under Jamshedpur Notified Area Committee (JNAC), Hurlung Jamshedpur. (5th Call)
2.	Estimated Cost (rs.)	Construction cost :- ₹ 3,02,32,094.00 Operation & Maintenance cost :- ₹ 31,17,705.00 Total cost :- ₹ 3,33,49,799.00
3.	Cost of Bid Document (INR)	INR 10,000/- (Ten thousand Only) Non-Refundable.
4.	Bid Security (INR)	Bid Security: Rs 3,33,497.00
5(a).	Time of Completion	1 year including one month of trial run.
5(b).	Defect Liability Period	Defect liability period 1 years after satisfactory completion of project.
(c)	O&M Period	1 year after satisfactory completion of project.
6.	Date/Time of publication of tender on website	22.12.2025 at 05:00 PM
7.	Document downloading Start date	22.12.2025 at 05:00 PM
8.	Pre bid meeting date, Time & venue	26.12.2025 at 03:00 PM, JNAC Conference Hall
9.	Bid Submission Start date	27.12.2025 at 05:00 PM
10.	Bid Submission end date	19.01.2026 at 05:00 PM
11.	Bid Opening date	20.01.2026 (Online) 03:00PM E-tendering
12.	Mode of Submission of bids	(http://jharkhandtenders.gov.in)
13.	Name and address of office inviting tender	Deputy Municipal Commissioner, Jamshedpur Notified area Committee, Jamshedpur.
14.	Contact No. of procurement officer	Mr. Ajay Kumar Yadav, A.E, J.N.A.C
15.	Helpline No. of E-procurement cell	9572649415

Note- 1. Only E-tender will be accepted, further details can be seen on website (<http://jharkhandtenders.gov.in>)

**Deputy Municipal Commissioner,
Jamshedpur Notified Area Committee,
Jamshedpur.**

Hinduja Housing Finance Ltd.
Branch Offices: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015. Branch Offices: 1st Floor, Above IndusInd Bank, Old G. T. Road Sham Nagar, Near Namaste Chowk, Karmal - 132001
Email: action@hindujahousingfinance.com

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of **Hinduja Housing Finance Limited** under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Hinduja Housing Finance Limited**.

Sr. No.	Name of the No. Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Date of Physical Possession
1.	1. Mr. Bijender Singh S/o Mr. Balwan Singh 2. Mr. Sachin Kumar S/o Mr. Bijender Singh 3. Mrs. Varsha W/o Mr. Sachin Kumar Loan No. HN/PNP/PNPT/A0000 00288	1. All Parts & Parcel of Property measuring 100 sq.yds. i.e. 3 Maria 3 Saraii being 148 share out of 8 Kanal 0 Maria comprised in Kheawat No.346, Rect. No.33 Killa No. 118-0) situated at Hanuman Basti Line Par Samakhia Tehsil Samakhia Distt. Panipat by way of Transfer Deed Vaska No.1941 Dated. 14.09.2015 registered in the office of Sub-Registrar Samakhia and Mutation No.23633 entered and sanctioned by A.C 2nd Grade Samakhia Boundaries are - East: Gali, West: Digar, North: Shamsher, South: Bimla	22.08.2024 Rs.10,25,669 (Rupees Thirteen Lakh Seventy Thousand Thirty Five Only) 17-08-2024 alongwith further charges and interest etc. thereon.	12.12.2025
2.	1. Mrs. Poonam W/o Mr. Ram Kumar 2. Mr. Ram Kumar S/o Mr. Sohan Ram Loan No. PJ/MN/YAMU/A0000 00045	1. All Parts & Parcel of Property House, measuring 06.66 Marlas i.e. 200 Sq. Yards, comprising in Kheawat/Khatoni No. 4769 (Now Kheawat/Khatoni No. 5274), Khara No. 27/291 (7-15) being 4/155 share i.e. 04 Marlas and Kheawat/Khatoni No. 50/72, Khara No. 27/284 (1-12) being 1/12 share i.e. 02.66 Marlas, total land measuring 06.66 Marlas, situated at Mouja Mand Kheri, H.B. No. 319, Tehsil Chhachhaurail, District Yamuna Nagar, owned vide Regd. Sale Deed No. 1249 Dated 13-01-2020 and Regd. Transfer Deed No. 1420 Dated 16-11-2022. Bounded as North - 38'-7" - Street 10' wide South - 38'-7" - Property of Owners, East - 53'-5" - Property of Joginder Singh, West - 57'-11" - Street 8' wide	28.12.2024 Rs.9,54,071/- (Rupees Nine Lakh fifty four Thousand Seventy one Only) 28-12-2024 alongwith further charges and interest etc. thereon	16.12.2025

The above-mentioned borrowers(s)/guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: 17.12.2025
Place: Karnal

Authorised Officer,
Hinduja Housing Finance Limited

APM INDUSTRIES LIMITED
ISISO 9001-2000
Regd. Office: SP-147, RILCO Industrial Area, Bhiwadi, District Khairthal-Tijara, Rajasthan-301019
Corporate Office: 910, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019
E-mail: csapminidustriesltd@gmail.com, Website: www.apminidustries.co.in
CIN No.: L21015RJ1973PLC015819, Phone No. 011-26441015-18

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, all shareholders are hereby informed that a special window has been opened for re-lodgement of transfer deeds as detailed below:

Tenure for re-lodgement	Six months from July 07, 2025 till January 06, 2026
Who can re-lodge the transfer requests?	Shareholders whose transfer deeds were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise.
Process for re-lodgement of transfer requests	Shareholders are required to submit original transfer documents, along with corrected or missing information to Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited at D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Phone : 011-04050193 to 197 and email at parveen@skylinertta.com or the Company at csapminidustries@gmail.com
Mode of transfer	All such securities re-lodged during this period shall be issued only in dematerialized mode after following the due process.

For APM Industries Limited
Neha Goel
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 17.12.2025

PIRAMAL PHARMA LIMITED
CIN: L24297MH2020PLC338592
Regd. Office: Gr. Flr., Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra, India, Tel No.: +91 22 38023000/4000;
Email: shareholders@piramal.com; Website: www.piramalpharma.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that Piramal Pharma Limited ('the Company'), pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and various subsequent circulars issued, read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars'), and the Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2') and other applicable laws, rules and regulations, if any, is seeking approval of the Members of the Company, by way of Postal Ballot, only through remote e-voting process, in relation to the following Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice ('Notice') dated December 8, 2025.

1. Appointment of Mr. Amit Soni (DIN: 05111144) as an Independent Director of the Company

The Company has completed dispatch of the Notice on December 17, 2025 through electronic mode, to those Members whose names are recorded in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as on Friday, December 12, 2025 'cut-off date' and who have registered their e-mail addresses with the Company / Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) ('MUFG') / Depository Participants ('DPs'). Accordingly, physical copy of the Notice, postal ballot form and pre-paid business reply envelope have not been sent to Members for this Postal Ballot.

The Notice is available on the Company's website at www.piramalpharma.com in the investors section, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on the cut-off date shall be entitled to vote in relation to the resolutions specified in the Notice. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the total paid-up equity share capital of the Company, as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period commences on Thursday, December 18, 2025 from 9:00 a.m. (IST) and ends on Friday, January 16, 2026 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the same will not be allowed to change subsequently.

The Members holding shares in electronic form and who have not updated their email address of KYC details are requested to register/update the details in their demat account as per the process advised by respective DP. Members holding shares in the Escrow account of the Company are requested to claim their shares from the Escrow account of the Company by submitting the Schedule 1 or 2 as applicable to the MUFG. The Members can access the relevant forms on the Company's website under 'Forms' tab at <https://www.piramalpharma.com/shareholder-information>.

Mr. Ainesh Jethwa, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 27990 / C.P No. 19650), of Ainesh Jethwa & Associates, Practicing Company Secretary, failing him Mr. Pratik Anand Dhadia, (Membership No. ACS 28695 / C.P No. 23771), of Pratik Anand Dhadia & Associates, Practicing Company Secretary), have been appointed as the Scrutinizer, to conduct the postal ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the voting conducted by Postal Ballot shall be declared not later than two working days from the conclusion of the remote e-voting. The said results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website at www.piramalpharma.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and simultaneously be communicated to BSE and NSE, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any queries, Members may write to the Company at shareholders.ppl@piramal.com. Further for any queries pertaining to e-voting, Members are requested to refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 4886 7000 or send a request to Ms. Prajakta Pawle, Executive, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Piramal Pharma Limited

Sd/-
Tanya Sanish
Company Secretary
Place : Mumbai
Date : December 17, 2025

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001)
Corporate identity Number U40109PB2010SGC033813
Website: www.pspcl.in, Mobile No. 96461-55525

Short Term E-Tender Enq. No. 7757/P-3/EMP-13198 Dated 12.12.2025

Dy. Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-3) GGSSSTP, Roopnagar invites E-Tender ID No. ID: 225_POWER_1556601 for Procurement of ESP Rapping System.

For detailed NIT & Tender Specification please refer to <http://eproc.punjab.gov.in> from 17.12.2025 (01:00 PM onwards).

Note:- Corrigendum & amendments, if any will be published online at <http://eproc.punjab.gov.in>.

RTP -18/25 1079/12/2025-26/5984

DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office & factory: Dwariakesh Nagar - 246 762, Dist. Bijnor, (U.P)
Tel.: 01343 - 267057-64; Fax: 01343 - 267065
Corp. off.: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400021.
Tel.: 2283 2486, 2204 2945
E-Mail: investors@dwariakesh.com; Website: www.dwariakesh.com
CIN: L15421UP1993PLC018642

INFORMATION OF OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER DEEDS IN ELIGIBLE CASES

Transfer of securities in physical mode was discontinued with effect from April 01, 2019, by Securities and Exchange Board of India (SEBI). Subsequently, it was clarified that transfer deeds lodged prior to deadline of April 01, 2019 and rejected/returned due to deficiency in the documents may be re-lodged with requisite documents till March 31, 2021.

SEBI has vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, decided to extend this facility and open a special window for re-lodgement of transfer requests for physical shares which were originally lodged before April 01, 2019 and were rejected, returned, or not attended to due to deficiency in documents or process or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.

Eligible shareholders are requested to note that during this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode and due procedures must be followed. Shareholders who had earlier lodged any physical transfer request prior to April 01, 2019 which was rejected or returned due to reasons mentioned above, may take benefit of this opportunity and re-lodge such shares for transfer.

For any queries or assistance, you may contact the Company's RTA: **Name of RTA :** M/s. MUFG Intime India Private Limited (Formerly M/s. Link Intime India Private Limited)

Email: investor.helpdesk@in.mpmu.mufg.com

Phone: +91 22 49186000-79

Address: C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.

This communication is also updated on the website of the Company at www.dwariakesh.com.

For Dwariakesh Sugar Industries Limited
sd/-
B. J. Maheshwari
Managing Director & CS cum CCO
DIN: 00002075
Place: Dwariakesh Nagar,
Dist. Bijnor,
Uttar Pradesh
Date : December 17, 2025

HDFC BANK
HDFC BANK LIMITED
Registered Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013
[CIN: L65920MH1994PLC080618]
[E-mail: shareholder.grievances@hdfc.bank.in] [Website: www.hdfc.bank.in]
[Tel. No.: 022 6631 6000]

Notice Of Transfer Of Equity Shares To Investor Education And Protection Fund (IEPF) Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended and various circulars issued thereto, from time to time, by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "the Rules").

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with said Rules, the Bank is required to transfer to IEPF such shares corresponding to the interim dividend for the financial year 2018-19 pertaining to erstwhile Housing Development Finance Corporation Limited ('e-HL') (amalgamated with and into the Bank w.e.f. July 1, 2023) in respect of which the shareholder has not claimed dividend for seven consecutive years.

In compliance with the Rules, the Bank has vide letter dated December 16, 2025 sent a specific communication to the concerned shareholder(s) who held shares in e-HL and consequent to the amalgamation, became shareholders of the Bank, whose unclaimed dividend/ shares as aforesaid are liable to be transferred to IEPF requesting them to claim their dividend(s) on or before April 6, 2026, failing which the shares held by them shall be transferred to IEPF.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that in terms of the said Rules, the Bank would be issuing new share certificate(s) in lieu of share certificate(s) held by them for the purpose of transferring the said shares to IEPF and the said original share certificate(s) shall stand automatically cancelled and non-negotiable. In case of shares held in demat mode, the transfer would be effected by way of corporate action through the depositories to the demat account of IEPF Authority, established by the Central Government. The concerned shareholders are further requested to note that all future benefits arising on such shares would also be transferred to IEPF Authority

CMYK